



::प्रधानआयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL
EXCISE,



सत्यमेव जयते

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

DIN- 20201064SX00000X796A

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No. V2/94/RAJ/2020	पत्र सं / Letter No. F.No. V/18-67/Ref/2018-19	दिनांक/ Date 11.08.2020
---	--	--	-------------------------------

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-109-2020

आदेश का दिनांक / Date of Order:	28.10.2020	जारी करने की तारीख / Date of issue:	28.10.2020
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित/
Passed by **Shri Gopi Nath**, Principal Commissioner (Appeals),
Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Shanti Construction Pvt Ltd, 205, Sanskar, Opp. KKV Hall, 150 Feet Ring Road, Kalavad Road, Rajkot..

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-


(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रूपे 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of duty demanded/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रूपे 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपीलित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।/
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) **भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :**
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं।/
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशो का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbcc.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbcc.gov.in



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Shanti Structure Pvt. Ltd., Rajkot (*hereinafter referred to as "Appellant"*) filed appeal No. V2/94/Raj/2020 against letter F.No. V/18-67/Ref/2018-19 dated 11.8.2020 (*hereinafter referred to as 'impugned letter'*) passed by the Dy. Commissioner, Central GST Division-II, Rajkot (*hereinafter referred to as 'refund sanctioning authority'*).


2. The brief facts of the case are that the Appellant had filed 10 refund claims on 9.11.2016 before the Asst. Commissioner, Service Tax Division, Rajkot for refund of service tax paid by them on specified service, pursuant to Section 102 of the Finance Act, 2016, which granted retrospective exemption from service tax for construction service provided to Government, Government authorities and local self Government authorities. The said refund claims were rejected by the refund sanctioning authority. The Appellant challenged the rejection of refund orders before the then Commissioner(Appeals), Rajkot, who vide his Order-in-Appeal No. RAJ-EXCUS-000-APP-89 TO 100-2018-19 dated 18.5.2018 allowed the appeals with consequential relief.

2.1 Pursuant to aforesaid Order-in-Appeal, the Appellant vide letter dated 4.6.2018 requested the refund sanctioning authority to sanction refund amount along with interest. The refund sanctioning authority sanctioned refund of Rs. 1,08,95,874/- on 4.9.2018 to the Appellant but did not sanction interest.

2.2. The Appellant vide letters dated 13.11.2019, 15.1.2020 and 3.7.2020 requested the refund sanctioning authority to sanction interest on delayed sanctioned of refund under Section 11BB of the Central Excise Act, 1944. The refund sanctioning authority vide impugned letter rejected the request of the Appellant for grant of interest under Section 11BB of the Act on the ground that there was no delay in payment of principal refund amount.

3. Aggrieved, the Appellant has filed the present appeal, *inter alia*, on following grounds:

(i) The refund sanctioning authority has erred in observing that they had not filed complete refund application on 05.06.2018 and the deficit documents were submitted vide letter dated 31.08.2018 inasmuch vide letter dated 31.08.2018, the appellant had only submitted a copy of cancelled cheque based on which



lower authority had sanctioned refund of principal amount on 04.09.2018 and hence, there is no legal justification to deny interest for the period from 09.02.2016 (date of expiry of three months from the date of filing of refund applications) to 15.09.2018 (date of receipt of principal amount refunded by lower authority) under the garb of delayed submission of deficit documents

(ii) That the lower authority has erred in declining to comply by the provisions of Section 11BB of the Central Excise Act,1944 on the grounds that refund can be sanctioned only after verification of payment particulars, no dues certificate from jurisdictional Range Superintendent and principles of unjust enrichment; that such grounds have no bearing on the provisions of Section 11BB of the Central Excise Act,1944 for payment of interest on delayed refund. Hence, this does not constitute any lawful and valid reason or justification to deny interest for the period between the date of expiry of three months from the date of filing of refund applications and the date when the amount covered by refund application is refunded.

(iii) That the grounds canvassed by the lower authority for denying the interest tantamount to complete disregard of the legal provisions contained in Section 11BB of the Central Excise Act, 1944 as made applicable to Finance Act, 1994 and deserve to be quashed and set aside and orders for payment of interest payable to appellant in terms of Section 1 13B of Central Excise Act,1944 deserve to be passed.

4. The Appellant waived the opportunity of personal hearing as per column No. 6(A) of the appeal Memorandum ST-4 and requested to pass decision based on the submissions made in appeal memorandum. I, therefore, take up this appeal for decision vide this order.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned letter and grounds raised in appeal memorandum. The issue to be decided in the present appeal is whether the Appellant is eligible for interest on delayed sanctioned of refund under Section 11BB of the Central Excise Act, 1944 or not.

6. On going through the records, I find that the Appellant had filed refund claims on 9.11.2016 for refund of service tax paid by them pursuant to retrospective exemption granted vide Section 102 of the Finance Act, 2016. The refund claims were rejected by the refund sanctioning authority but the



a


Appellant succeeded before the Commissioner(Appeals), Rajkot, who allowed their appeals with consequential relief vide Order-in-Appeal dated 18.5.2018. Pursuant to favourable order, the Appellant requested refund sanctioning authority to sanction refund along with interest. The refund sanctioning authority sanctioned refund of service tax on 4.9.2018 but did not sanction interest. The Appellant took up the matter with refund sanctioning authority for payment of interest on delayed sanctioned of refund under Section 11BB of the Central Excise Act, 1944. The refund sanctioning authority rejected their claim for interest vide the impugned letter on the grounds that complete refund application was not filed on 5.6.2018 and deficient documents were submitted vide letter dated 31.8.2018 and that refund claims were sanctioned on 4.9.2018 and hence, there was no delay in payment of refund amount.

6.1 The Appellant has contested that the refund sanctioning authority has erred in observing that they had not filed complete refund application on 05.06.2018 and the deficit documents were submitted vide letter dated 31.08.2018 inasmuch vide letter dated 31.08.2018, they had only submitted a copy of cancelled cheque based on which refund was sanctioned and hence, there is no legal justification to deny interest for the period from 09.02.2016 (date of expiry of three months from the date of filing of refund applications) to 15.09.2018 (date of receipt of principal amount refunded by refund sanctioning authority) under the garb of delayed submission of deficit documents.

7. I find it is pertinent to examine the provisions of Section 11BB of the Act, which are reproduced as under:

“SECTION 11BB. Interest on delayed refunds. — If any duty ordered to be refunded under sub-section (2) of section 11B to any applicant is not refunded within three months from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, there shall be paid to that applicant interest at such rate, [not below five per cent] and not exceeding thirty per cent per annum as is for the time being fixed [by the Central Government, by Notification in the Official Gazette], on such duty from the date immediately after the expiry of three months from the date of receipt of such application till the date of refund of such duty :

Provided that where any duty ordered to be refunded under sub-section (2) of section 11B in respect of an application under sub-section (1) of that section made before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, is not refunded within three months from such date, there shall be paid to the applicant interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of refund of such duty.”



7. I find that it is not under dispute that the refund claims were filed on 9.11.2016, which were sanctioned on 4.9.2018 pursuant to Order-in-Appeal dated 18.5.2018. The provisions of Section 11BB of the Act mandates payment of interest after expiry of three months from the date of receipt of refund application to date of sanction of refund. In the case on hand, the refund was not granted within 3 months from the date of receipt of refund claims and hence, the Appellant is eligible for interest under Section 11BB of the Act for the period after expiry of three months from date of refund applications to date of sanction of refund claims. I rely on the judgement passed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Ranbaxy Laboratories Ltd reported as 2011 (273) ELT 3 (S.C.), wherein it has been held that,

“9. It is manifest from the afore-extracted provisions that Section 11BB of the Act comes into play only after an order for refund has been made under Section 11B of the Act. Section 11BB of the Act lays down that in case any duty paid is found refundable and if the duty is not refunded within a period of three months from the date of receipt of the application to be submitted under sub-section (1) of Section 11B of the Act, then the applicant shall be paid interest at such rate, as may be fixed by the Central Government, on expiry of a period of three months from the date of receipt of the application. The Explanation appearing below Proviso to Section 11BB introduces a deeming fiction that where the order for refund of duty is not made by the Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise but by an Appellate Authority or the Court, then for the purpose of this Section the order made by such higher Appellate Authority or by the Court shall be deemed to be an order made under sub-section (2) of Section 11B of the Act. It is clear that the Explanation has nothing to do with the postponement of the date from which interest becomes payable under Section 11BB of the Act. Manifestly, interest under Section 11BB of the Act becomes payable, if on an expiry of a period of three months from the date of receipt of the application for refund, the amount claimed is still not refunded. Thus, the only interpretation of Section 11BB that can be arrived at is that interest under the said Section becomes payable on the expiry of a period of three months from the date of receipt of the application under sub-section (1) of Section 11B of the Act and that the said Explanation does not have any bearing or connection with the date from which interest under Section 11BB of the Act becomes payable.

...

14. At this stage, reference may be made to the decision of this Court in *Shreeji Colour Chem Industries* (supra), relied upon by the Delhi High Court. It is evident from a bare reading of the decision that insofar as the reckoning of the period for the purpose of payment of interest under Section 11BB of the Act is concerned, emphasis has been laid on the date of receipt of application for refund. In that case, having noted that application by the assessee requesting for refund, was filed before the Assistant Commissioner on 12th January 2004, the Court directed payment of Statutory interest under the said Section from 12th April 2004 i.e. after the expiry of a period of three months from the date of receipt of the application. Thus, the said decision is of no avail to the revenue.





15. In view of the above analysis, our answer to the question formulated in para (1) supra is that the liability of the revenue to pay interest under Section 11BB of the Act commences from the date of expiry of three months from the date of receipt of application for refund under Section 11B(1) of the Act and not on the expiry of the said period from the date on which order of refund is made."

(Emphasis supplied)

8. I find that the refund sanctioning authority has observed in the impugned letter that complete refund application was not filed on 5.6.2018 and deficient documents were submitted vide letter dated 31.8.2018 and that refund was sanctioned within three months from date of receipt of complete refund claim. I do not comprehend the reasoning adopted by the refund sanctioning authority. If any documents were found deficient, the refund sanctioning authority ought to have issued deficiency memo at the time of receipt of refund claims on 9.11.2016 and certainly not at the time of processing refund claims pursuant to Order-in-Appeal dated 18.5.2018. I find that the refund sanctioning authority has observed that the Appellant submitted deficient documents on 31.8.2018. I find that the Appellant had submitted only a copy of cancelled cheque vide letter dated 31.8.2018 to the refund sanctioning authority as per records available in appeal memorandum. If that be the case, the refund sanctioning authority has erred in considering non supply of cancelled cheque as deficient document, since cancelled cheque is required for making payment of refund amount and the same is not required for processing refund claims. The stand taken by the refund sanctioning authority to deny legitimate interest under Section 11BB of the Act is erroneous and beyond any rationale.

8.1 I find that the then Commissioner(Appeals), CGST, Rajkot, while holding that the Appellant was eligible to refund of service tax, has given findings at para 6 of the Order-in-Appeal No. RAJ-EXCUS-000-APP-89 TO 100-2018-19 dated 22.5.2018 that the Appellant had submitted the required and relevant documents along with refund claims. The relevant portion is reproduced as under:

"6. The lower adjudicating authority has rejected refund claims on the ground of non submission of the relevant documents. I find that the appellant had submitted copy of agreement letter of award establishing that the services were provided to the Government, Government authorities and local government authorities, copy of relevant R.A. Bills issued during 01.04.2015 to 29.02.2016, copy of GAR-7 challans evidencing payment of 'service tax, 'Work-sheet establishing correlation of payment particulars of service tax for the work undertaken by appellant, certificate of chartered accountant certifying that the incidence of service tax has not been passed on to the service receivers or to any



[Handwritten signature]

other person, copy of audited balance sheet for FY 2015-16 showing amount as service tax 'receivable' In 'current assets' copy of ST-3 returns showing details of service undertaken payment of service tax made by the appellant during FY 2015-16. etc. Hence, I find that appellant has submitted the required and relevant documents along with their refund claims."

8.2 In view of above, it is beyond doubt that the Appellant had submitted complete refund claims on 9.11.2016 and hence, there was no reason for the refund sanctioning authority to not grant interest for delayed sanctioned of refund under Section 11BB of the Act.

9. In view of above, I set aside the impugned letter and allow the appeal.

10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeal filed by the Appellant stand disposed off in above terms.

(Handwritten Signature)
(GOPI NATH)
Principal Commissioner (Appeals)

28/10/2020

Attested

(Handwritten Signature)

(V.T.SHAH)
Superintendent (Appeals)

By Regd Post AD

To, M/s Shanti Construction Pvt Ltd 205, Sanskar, Opp. KKV Hall, 150 Feet Ring Road, Kalavad Road, Rajkot.	सेवा में, मे. शांति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, केकेवी हॉल के सामने, कालावड़ रोड, राजकोट।
---	---

प्रतिलिपि :-

1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।

2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, ^{भवननगर} _{राजकोट} को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3) उप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट-2 मण्डल, राजकोट, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

✓ 4) गार्ड फाइल।

